

जनपद अल्मोड़ा द्वारा माह सितम्बर 2017 में किये गये सराहनीय कार्य

1-

Police Station Name	थाना भतरौखान
Image	
Date Of good work	13.09.16
Brief	जनपद अल्मोड़ा से श्री अशोक कुमार सिंह थानाध्यक्ष भतरौखान ने दिनांक 13.09.16 को समय 03.40 बजे प्रातः जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर ग्राम पनवाद्योखान (मालूखान) के पास एक कैन्टर गिरा है जिसके अन्दर एक व्यक्ति फंसा हुआ है। इस घटना की सूचना प्राप्त होने पर हमराही पुलिस बल व आपदा राहत उपकरण के सात तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए। घटना स्थल के पास कैन्टर संख्या डी0एल0-01-जी0बी0-7511 सड़क से करीब 100 फिट नीचे खड़ी पहाड़ी में पेड़ पर लटका हुआ था। उसमें कैन्टर चालक का दाहिना पैर खिड़की के दरवाजे में फंसा हुआ था। उक्त थानाध्यक्ष ने लोहे के दरवाजे को लोहे की आरी से काटकर चालक को बाहर निकाला, जिसके दाहिने पैर में गम्भीर चोट थी। घायल कैन्टर चालक राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री डीगर सिंह निवासी चमुवा(जागेश्वर) थाना दन्या, जनपद अल्मोड़ा को 108 एम्बुलेन्स की सहायता से उपचार हेतु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जिससे चालक की जान बचाई जा सकी। यदि उक्त थानाध्यक्ष द्वारा साहसिक कार्य करते हे अदम्य सास का परिचय नहीं दिया होता तो चालक की जान जोखिम में पड़ सकती थी। उक्त थानाध्यक्ष द्वारा किये गये इस अदम्य साहसपूर्ण कार्य की स्थानीय जनता एवं मीडिया द्वारा भूरी-भूरी प्रशंसा की गयी।

2-

Police Station Name	थाना अस्कोट
Image	
Date Of good work	01.07.2016
Brief	दिनांक 01.07.2016 की प्रातः डी0सी0आर0 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिंघाली क्षेत्र में बादल फटने की घटना घटित हुई है सूचना पर थानाध्यक्ष अस्कोट मय फोर्स के घटनास्थल हेतु रवाना हुए ओगला-भागीचैरा सड़क मार्ग काफी स्थानो पर मलुवा आ जाने के कारण बन्द था जिस कारण थानाध्यक्ष अस्कोट उ0नि0 नापु दीपक बिष्ट मय फोर्स के लगभग 16 किमी पैदल चलकर सर्वप्रथम घटनास्थल बस्तडी/मल्ला पत्थरकोट, उर्मा पहुँचे तथा घटनास्थल पर रेस्क्यू कार्य प्रारम्भ किया गया। आपदा की गम्भीरता को देखते हुए पी0ए0सी0, फायर सर्विस रेस्क्यू टीम एवं आपदा राहत बचाव कार्य हेतु गठित टीमो को भी घटनास्थल भेजा गया। एस0डी0आर0एफ0 की टीम जो धारचूला में तैनात थी को हैलीकॉप्टर की सहायता से घटनास्थल पर पहुँचाया गया। तत्पश्चात स्थानीय आर्मी असम रेजिमेन्ट चर्मा, आई0टी0बी0पी0, एस0एस0बी0 को भी सूचित किया गया तथा उक्त घटनास्थल पर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ व पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ दिनांक 01.07.2016 को ही लगभग 14 किमी पैदल चलकर घटनास्थल पर पहुंच गये थे। पुलिस तथा अन्य सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा घटनास्थल पर पर जाकर राहत एवं बचाव कार्य किया गया। आपदा की गम्भीरता को देखते हुए सिंघाली एवं बन्दरलीमा में संचार व्यवस्था हेतु आर0टी0 सैट स्थापित किये गये, जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान पुलिस द्वारा बस्तडी/उर्मा/मल्ला पत्थरकोट के 34 परिवारो के 150 लोगो को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया तथा मलुवे में दबे 06 घायलो को भी निकालकर उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया।